



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP01988920418328V

SELL

YAD

e-Stamp

COLLEGE OF THUR
Mob. No. 989166200

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

- : IN-UP01988920418328V
- : 30-Aug-2023 04:18 PM
- : NEWIMPACC (SV)/ up14326804/ MATHURA-SADAR/ UP-MTH
- : SUBIN-UPUP1432680499556585090487V
- : SACRATORY RAJENDRA SINGH
- : Article 4 Affidavit
- : Not Applicable
- :
- : LONGSHREE EDUCATIONAL INSTITUTE MATHURA
- : Not Applicable
- : LONGSHREE EDUCATIONAL INSTITUTE MATHURA
- : 50
(Fifty only)



Please write or type below this line

(प्रारूप—अ)

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम साहब सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं राजेन्द्र सिंह (नाम सचिव) कमशः अध्यक्ष एवं सचिव के ही सिंह शिक्षा समिति (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) सूरज राया मथुरा, शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा लौंगश्री एजूकेशनल इस्टीटियूट (संस्था का नाम एवं पता) भदार सौख मथुरा, नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम भदार पोस्ट सौख जिला मथुरा (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) मथुरा में गाटा संख्या 325 एवं रकवा 2.5980 एकड़ (कुल रकवा 1.048138 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 325 एवं रकवा कमशः Regn. No 942.5980 एकड़ (कुल रकवा 1.048138 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनोंक 15–09–2019 को पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल औफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल औफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, च०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल औफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अरौक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा।
मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी प्रदृष्टि या अन्यथा जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं जल्तारदायी होऊँगा।

३० अध्यक्ष

३० संचिव

The Contents of the Affidavit Document
Read over and Explained to Shri.....
who is Identified by Shri.....
Sworn Oath Attested to Day on 30-8-23
at my office & noted down in the Notarial
Register at No. 7358
and Charged Fees Rs.....

Know Shri/Smt. रामेश्वरी अहिं
He Has Sign/“u” thumb
impression under his.